



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$1\frac{2}{5} + \frac{1}{5} =$$

$$\frac{6}{9} + \frac{5}{9} =$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{7}{3} + \frac{7}{3} =$$

$$\frac{3}{9} + \frac{4}{9} =$$

$$\frac{1}{7} + \frac{5}{7} =$$

$$\frac{7}{2} + \frac{7}{2} =$$

$$\frac{5}{8} + \frac{4}{8} =$$

$$\frac{2}{9} + \frac{4}{9} =$$

$$\frac{3}{8} + \frac{7}{8} =$$



भिन्नों का जोड़ (समान भाजक)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$1\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

$$\frac{6}{9} + \frac{5}{9} = \frac{11}{9} = 1\frac{2}{9}$$

$$1\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{3} + \frac{7}{3} = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{9} + \frac{4}{9} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{1}{7} + \frac{5}{7} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{7}{2} + \frac{7}{2} = 7$$

$$\frac{5}{8} + \frac{4}{8} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$

$$\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{8} + \frac{7}{8} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$